

Dear Customers,

Greetings of the day!

In our continuous effort to keep you safeguarded from the market related frauds and increase awareness while conducting trades, we request you to go through the advisory issued by MCX and would request you to ensure that you do not engage with the individuals/entities mentioned below:

MCX has issued a press release dated August 02,2024 w.r.t. entity named "Angal One, Neetu, Pihu" are operating through mobile numbers 9354005868, 9625286939, 9625285175 & 9062898249 and phone numbers +14056484383 & +12282203778, and are allegedly trapping investors with fake promises of low margin requirement and investment guaranteed returns, providing illegal dabba trading platform and misusing the Multi Commodity Exchange of India Ltd. (MCX) brand name.

The investors are cautioned and advised not to subscribe to any such scheme/ product offered by any person/entity offering indicative/assured/guaranteed returns in the stock market as the same is prohibited by law. It may also be noted that the said person/entity is not registered either as a member or authorized person of any registered member of the National Stock Exchange of India Limited.

The investors may note that for any kind of disputes relating to such prohibited schemes none of the following resources will be available to investors:

- 1. Benefits of investor protection under Exchange's Jurisdiction
- 2. Exchange dispute resolution mechanism
- Investor grievance redressal mechanism administered by Exchange

Investors are advised to take note of the above

Participation in such prohibited schemes/platforms is at investors' own risk, cost and consequences. Further, investors are advised not to share their trading credentials such as user id/ password/OTP/PIN with anyone.

Accordingly, we would request you to be cautious and ensure that you do not engage in any activities with such persons/entities.

Assuring service True to You, Always Team Angel One (Continued from previous page.

nued from previous page... In integrate depository will not be able to release the lien without a release of IDT message from larget depository. Further, release of IDT message shall be sent by larget (depository either based on cancellation request received from Clearing Corporation or automatically generated after matching with Bid accepted detail as received from the Company or the Registrar to the Buykand. Post receiving the IDT message from target depository, source depository will cancell release access or unaccepted block shares in the demat account of the Eighle Shareholder. Post completion of reflecting period and receiving the require details viz. demat account details and accepted bid quantity, source depository shall debit the securities as per the communication message received from target depository to the extent of accepted bid shares from Eligible Shareholders I demat account and credit it to Clearing Corporation settlement account integrat depository on settlement date... For Eligible Shareholders holding Equity Shares in physical form, the funds pay-out would be given to their respective Slock Portect's settlement accounts for releasing the same to the respective Eligible Shareholders's account.

respective Blightle Shareholder's account.

The Equity Shares bought back in the demat form would be transferred to the special demat account of the Company opened for the Buyback ("Company Demat Escrow Account") in loss of certain shareholders viz., Nish, on-residents ext, where there are specific regulatory requirements pertaining to funds pay-out including those prescribed by the RBI) who do not opto the settle through custodiens, the funds pay-out would be given to their respective Shareholder Broker's settlement account for releasing the same to such Eligible Shareholder's account. For this purpose, the clinit type details would be collected from the Registar to the Buyback.

oroxer's semement account for releasing the same to such Eligible Shareholder's account. For this purpose, the client type details would be collected from the Registrant the Butyhack.

(11) Every Shareholder Broker, who puts in a valid bid on behalf of an Eligible Shareholder, would sissue a contract note and pay the consideration for the Equity Shares copied under the Butyhack and return the balance unaccepted demait Equity Shares to their respective clients. Company's Berker would also issue a contract note to the Company for the Equity Shares (and the Company Shares pursuant to proportionate acceptance) representations of the Equity Shares (and the Company Shares acceptance) and the Company shares (and the Shares pursuant to proportionate acceptance) representation split the share certificate and issue an ew consolidated share certificate for the unaccepted equity shares. In cancer was company and the share certificate and issue an ew consolidated share certificate for the unaccepted equity shares will be released, flancy covuld be returned by registered post or by ordinary post or courier (in case of physical shares) at the Eligible Shareholders sold ensure that their depository account is active till all formalities pertaining to the Butyhack are completed.

(4) The Company's Broker would also issue a contract note to the Company for the equity shares in accepted under the Butyhack.

(15) Equity Shareholders who intend to participate in the Buyback should consult their respective Shareholder Broker for payment to them of any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) that may be levied by the Shareholder Broker upon the selling Eligible Shareholder for tendering Equity Shares in the Buyback (secondary market transaction). The Buyback consideration received by the selling Equity Shareholder Broker miter respected Shareholder Broker, in respect of accepted Equity Shares, could be net of such costs, applicable taxes, charges and expenses (charling trokerage) and the Manage and Company accepts no responsibility to beer or pay such additional cost, applicable taxes, charges and expenses (6) The Equity Shares lying to the credit of the Company Demat Account after the Buyback will be extinguished in the manner and following the procedure prescribed in the SEBI Buyback Regulations.

12. Company Secretary & Compliance Officer

Company secretary & Unipaliance Unities in Investor may control the Compliance Officer for any clarification or to address their grievances, if any, during 10:00 AM IST to 50 PM IST on all working days, from Monday to Friday.

Name Sandeep Kumar Designation Company Secretary and Chief Compliance Officer
10:4102, Lusa Tower, Azadpur Commercial Complex, Delhi-110 033, India

+91 11 27679700-05 Tel. Email investor@insecticidesindia.com

Website are to the Offer and Investor Service Centre.

Registrar to the Offer and Investor Service Centre.

In case of any query the Eligible Shareholders may also contact the Registrar to the Buyback of the Company during working hours i.e. (10.00 AM IST to 5.00 PM IST on all working days at the following address from Monday for fiday:

CIN: 0742100L1991PLC042569
Alankit House, 4E/2 Jhandewalan Extension, New Delhi-110 055
Tel.: +91 4254 1966/958 Fax No.: +91 11 4254 1952/234
Email: Ill..buyback@alankit.com, Website: https://buyback.alank SEBI Registration No.: INR000002532; Contact Person: Achal Nath

14. Manager to the Buyback The Company has appointed Sundae Capital Advisors Private Limited as the Manager to the Buyback and their contact details are given below:

SUND®E

Sundae Capital Advisors Private Limited

CIN: U65990DL2016PTC305412 404, 4th Floor, Valibhav Chambers,Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai, 400 051, Maharashtra India

Tel. No.: +91 22 4515 5887. Email: insecticides.buyback@sundaecapital.com

nvestor Grievance e-mail id: grievances.mb@sundaecapital.com

Website: www.sundaecapital.com SEBI Registration No.: INM000012494 Validity Period: Permanent Contact Person: Anchal Lohia / Rajiv Sharma

15. Directors' Responsibility
As per Regulation 24(i)a) of the SEBI Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company
accept full responsibility for the information contained in this Public Announcement and confirms that
such document contains true, facutal and material information and does not contain any misleading
information. This Public Announcement is issued under the authority of the Board in terms of the
resolution passed by the Board on August 30, 2024.

Sd/Hari Chand Aggarwal
Chairman
(DIN: 00577015)

Sd/Rajesh Kumar Aggarwal
Managing Director
(DIN: 00576872)

TRIGYN TECHNOLOGIES LIMITED

TRIGYN TECHNOLUGICS LINE ...

TRIGY NO. 12200M198PGL020341

Registered Office: 27. SDF - 1, SEEPZ.SEZ.
Andher (Last) Mumbal 400 995 Fet: 91 22 6140 0909

Website: www.tigny.com Email: registrym.com

NOTICE is hereby given that the 38th Annual General Meeting (AGM) of Trigyn Technologies Limited (the Company) will be held of Monday, 30° Septembere, 224 at 33° 39 FM. (IST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact with the businesses as set out in the Nideo AGM, in compliance with the businesses as set out in the Nideo AGM, in compliance with the reunder and General Circular No. 102022 dated 28th December, 224 at 222, other Circular Issued by the Ministry of Corporate Affairs (*MCA*) from time to time, and Circular No. SEBIHO/CFP/0P-02/PI

(*MCA*) from time to time, and Circular No. SEBIHO/CFP/0P-02/PI

(*MCA*) from time to time, and Circular No. SEBIHO/CFP/0P-02/PI

in compliance with the above circulars, the Company with be sending the sending of the Motor of the 878 AGM along with the like of the Motor of the 878 AGM along with the like of the Motor of the 878 AGM along with the like of the Motor of the SP AGM along with the like of the Motor of the Motor of the SP AGM along with the like of the Motor of the SP AGM along with the like of the Motor of the Motor of the SP AGM along with the like of the Motor of the Motor of the SP AGM along with the like of the Motor of the Motor of the SP AGM along with the like of the Motor of the Motor of the Motor of the SP AGM along with the like of the Motor of the

Sandeep Kumar Company Secretary and Chief Compliance Officer (ACS: 29777)

ANGEL ONE LIMITED

PUBLIC NOTICE

One' not form the many than the property of the control of the con

For ANGEL ONE LTD Sd/-. Authorized Signatory

Date: 03.09.2024

Maharaja Shree UMAID MILLS LIMITED

Office: 7, Munshi Premchand Sarani, Hastings, Kolkata - 700 : +91:33-22230016; E-mail: kolkata msum@lnbgroup.com te: www.msumindia.com; CIN: U17124WB1939PLC128650 Office and Works: Jodhpur Road, Pali-306 401 (Rajasthan) : +91-2932-220286/288; F Email: ho.msum@lnbgroup.com

NOTICE OF THE 84TH ANNUAL GENERAL MEETING BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

CLOSURE AND EVOTING INTORNATION

Micro in hereby given that the 84" Annual General Meeting (ACI) of the
Comman hereby given that the 84" Annual General Meeting (ACI) of the
Comman hereby given that the 84" Annual General Meeting (ACI) of the
Comman Standard Time ISI) invogly Video Conferencing (ACI)
Other Audio Visual Means (OA/M) without the need of the physical presence
of the member, in compliance with all applicable provisions of the Companies
AcI, 2013 and Rules made thereunder, read with General Circular No. 142020 dated
ated 8" April, 2020. General Circular No. 172020 dated of 9" April, 2020.

22/2020 dated 15" June, 2020. General Circular No. 33/2020 dated
2202 General Circular No. 10/2021 dated 31st December,
2020. General Circular No. 10/2021 dated
25" September, 2029. General Circular No. 10/2021 dated
25" September, 2023 issued by Ministry of Corporate Affairs (Collectively
referred as MCA Circulars) to transact the businesses as forth in the Notice
convening the AGM.

common as much curculars) to transact the businesses set forth in the Notice convening the AGN.

In Compliance with the aforesaid Circulars issued by the MCA Circular, the Annual Report for the financial year ended 31th March, 2024 consisting of Annual Report for the financial year ended 31th March, 2024 consisting of Compliance of the Set of Compliance of the Company inter alial indicating the process and manner of e-voting have been sent through electronically to all the Shareholders whose Email IDs are regulated with the Registrar & Share Francisch Agent (RTA) Deposition of the Company in the Registrar & Share Francisch Agent (RTA) Deposition (RTA) Deposition of the Company in the Set of Compliance of the Set (RTA) Deposition of the Set (RTA) Deposit

www.evotingfindia.com.

In compliance with the provisions of Section 100 of the Companies At. 2013 read with Rule 20 of the Companies (Managament and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Managament and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Managament and Administration) Amendment Rules, 2015 we 41 ⁹⁹ March, 2015, Classes 7.2 of Secretarial Administration Amendment Rules, 2015 we 41 ⁹⁹ March, 2015, Classes 7.2 of Secretarial applicable notifications/ circulars, the Company is pleased to provide to its members the facility of voining by electron increas in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with Central Depository Services (India) Intel (CDSI, 107 facilitating voting through electronic means, as the authorized - Voting's well as the evoling system on the date of the AGM will be provided by CDSI.

Ms. Yind Kothari and Company, Practicing Company Secretaries have been appointed as the Scrutinizer for conducting the e-voting in a fair and transparent manner.

All the Members are hereby informed that:

- The remote e-voting period begins at 9:00 a.m. on Monday, 23rd September, 2024 and ends at 5:00 p.m. on Wednesday 25rd September, 2024. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.
- The Members of the Company holding shares either in physical form dematerialized form as on the cut-off date i.e. 19th September, 2024, o shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at AGM.
- ACM.

 ACM of the for the Menters shall be in processor to the extension of the Menters shall be in processor to the extension day. The work of the Menters shall be in processor to the extension day of the work of the September 2004 (cured date). Any person, who acquire shares and became the Member of the Company after dispatch of the Notice but before the cut-off date (e. 19th September 2004), any obtain the Sequence Number to yearding a request to the Datamatica Private Limited, at an email id: méglidefglyahoc.com.

 The Members of the Company holding shares either in physical form or in demanderatized form, as on the closing of working hours of Cut-off Data (e. 19th September 2004) and not called her volte through remote working company of the company holding the volte through remote working shares shall not be allowed to the oragin in the meeting even after execusing blasheritis right to volte through remote volting, but, shall not be allowed to de again in the meeting. Once the volte is unskeptenelly.

INCE is neteroly intriner given man pursuant to me provisions or Section 9 is 6 Companies Act, 2013 and the applicable rules framed thereunder, the ster of Members and Share Transfer Books of the Company will remain difrom Friday, 20th September, 2024 to Thursday, 26th September, 2024 days inclusive) for the purpose Annual General Meeting.

Securekloud Technologies Limited

NOTICE OF THE 39TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/ OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

THROUGH VIDEO CONFERENCING OTHER AUDIO-VISIONA MEANS IN
Which as harely jeen that the 20th Areau General Meding (AMI) of the Corpsay will
be led for evideo conference and other audio visual means (N) on Monotaly, September
15, 2020 is sused by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SERH-MCGP-PRO-297.
25, 2020 is sused by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SERH-MCGP-PRO-297.
26, 2023 for all other of 2, 2023 issued by 25B Reventanter collectively referred to as
17th Corporate Affairs (MCA) and SERH-MCGP-PRO-297.
27th Corporate Services Pro-LLL at
17th MCGRO-207.
27th Corporate Services Pro-LLL at
17th MCGRO-207.
27th MCGRO-207.
27t

flo@adrotcorporate.com.

Indice of the 39th AGM and Annual Report 2023-24 will also be made available on the

elidice of the 39th AGM and Amrusil Report 2002-24 will also be made available on this Ompranys website, and www.securisidos.com, and sock echanges website. in SEC Limits and blaterial Shook Evchange Limited, www.blaterials.com and www.secistosids.com and on EUCS1 websites, and www.securisicosids.com and www.secistosids.com and on EUCS1 websites, and www.securisicosids.com EUCS1 websites, and www.secistosids.com EUCS1 websites, and EUCS1 websites, and EUCS1 websites and EUCS2 websites and EU

otice to the shareholders. office of the 39th AGM will be sent to the shareholders in accordance with the applicable

BAFNA PHARMACEUTICALS LIMITED
CIN: L24294TN1995PLC030698
Regd Off: "Bafna Towers" No.299, Thambu Chetty Street, Chennal-600001
Ph: 044-2267 5171 / 2327 0892 / 4267 7505
Email lim0fglodingplamma com, Website: www. butharplamma.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

19.38 a.m. IST through Video Conferencing/Other Audio-Visual Means (VCOAM), to smace a technical measures of the Meeting date of August 12. (VCOAM), to smace a technical measures of the Meeting date of August 12. (VCOAM), to smace a technical measures of the Meeting date of August 12. (VCOAM), to smace a technical measures of the Meeting date of August 12. (VCOAM), to small contains 12. (VCOAM) and SEBI Circular No. SEBI-HOCPTDPD-2P/CIR72023167 dated 107. (VCOAM) and SEBI-HOCPTDPD-2P/CIR72023167 dated 107.

The remote e-voting shall end on I ussags, output like any expension with a Any person, who acquires share of the Company and becomes membrompany after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as or fit data is e. Spettment 18, 2024, may total in the login I Dad password by request at cs@bafnapharma.com or helpdesk.evoting@cdslinlowwer, if a person is already registered with CDSL for e-voting then exist and password can be used for casting vote.

However, if a person is already registered with CDSL for e-voling them existing. Dam dipassword carbon beauseff or casting volv-working models shall be disabled CDSL beyond 500 g.m. on September 24, 2024; (b) The facility for voling the electronic voling system will also be made available during the AGM and the Members present in the AGM through VC / DAVM facility, who have not cast to voice to the resubclines in though remote volving and we otherwise not trained and the AGM and the state of the state of the state of the state of and the AGM and that not be entitled or cast their vives again, and (c) Apr whose name is recorded in the Register of Members on in the Register of Benefit whose name is recorded in the Register of Members on in the Register of Benefit whose name is recorded in the Register of Members on in the Register of Benefit whose name is recorded in the Register of Members on in the Register of Benefit whose name is recorded in the Register of Members on in the Register of Benefit whose name is recorded in the Register of Members on in the Register of Benefit whose name is recorded in the Notice of the AGM, which is also available on substitute of the Company www. Daving harmon co.m.

detail in Notice of AGM.

It. In case of any queries relating to attending AGM and e-Voting from the e-Voting. System, members may refer the Frequently Asked Questions (FAGs) for Shareholders and o-voting User Manual for Shareholders and swallbelu under Height section of www.evotingrindia.com or send a request to hepicask-evotingsgledunindia.com or contact Mr. Rakesth Davil (022-2305554). Mr. Nilin Kursfer (022-230559738) of Central Deplembry Services (pinal). Indied for Shareholders (pinal).

otice of the 30th ADM will be sent to the Susrenauers in accommendation was on their registered email of in due course.

For Secure/Month Technologies: Limited.

By the order of the Board
Jayaschree Vassedram
Company Secretary
M.NO AS6225

M.NO AS6225 Place: Chennai Date: September 3, 2024

THE INDIAN PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED

CIN: U92140MH1969GAPU14359

Regd. Off.: 208, Golden Chambers, New Andheri Link Rd.,
Andheri (W), Mumbai– 400 053 Tel: 69729999 /46067653

NOTICE TO MEMBERS SEEKING NOMINATIONS FOR ELECTION OF DIRECTORS TO THE BOARD OF DIRECTORS accordance with Article 24 of the Articles of Association of the Company and subject the provisions of the Companies Act, 2013 along with the relevant Rules made rereunder, the Board of Directors of the Company hereby invites primations/candidatures from the Members for election of Directors.

nations/candidatures are invited from the Members on account of ment by rotation of following Directors who being eligible have offered

SI No	Nomination/ candidature from Region	Member Category	Remarks
1	North	Author Composer	Due to retirement by rotation of Mr. Samir Sen Sambhusen Sen (DIN: 02810672) at ensuing 54th Annual General Meeting of the Company who being eligible, has offered himself for re- appointment at the ensuing 54° AGM.
2	South	Author Composer	Due to retirement by rotation of Mr. Jayakumar Jayaraj Harris (DIN: 02081326) at ensuing 54* Annual General Meeting of the Company who being eligible, has offered himself for re- appointment at the ensuing 54* AGM.
3	East	Author Composer	Due to retirement by rotation of Mr. Jeet Gannguli (DIN: 08484597) at ensuing 54* Annual General Meeting of the Company who being eligible, has offered himself for re- appointment at the ensuing 54* AGM.
4	South	Publisher Owner	Due to retirement by rotation of Mr. Aditya Gupta (DIN: 02815692) representing Aditya Music (India) Private Limited at ensuing 54 Annua General Meeting of the Company who being eligible, has offered himself for re-appointment at the ensuing 54"AGM.
5	West	Publisher Owner	Due to retirement by rotation of Mr. Dinra, Karunakara Shetty (DIN: 09680087) representing. Sony Music Publishing (India) Private Limited at ensuing 54" Annual General Meeting of the Company who being eligible, has offered himself for re-appointment at the ensuing 54" AGM.

For the facility of members, the Company has emailed on 29° August, 2024 a complete set of documents consisting of format of Notice of Nomination and other

atutory disclosure documents viz.

1 with MBP-1 being Notice of Interest in other entities by Directors, and promise the properties of the

I) Format of Profite or Lahnause.

The destroors embers are required to furnish the above nomination notice along the other capsulate documents as mentioned above on on before Monday, triffic expensive for the company of the Compan

Mumbai, September 03, 2024

Mukesh Tai

Membership No. FCS 9604

Technocraft Industries (India) Limited CIN No. L28120MH1992PLC069252
Registered Office: Technocraft House, A-25, Fload No.3, MIDC Industrial Estate, Andheri (East), -400093, Maharashtra, India. Tei: 4098 2222; Fax No. 2855

Email: investor 6 lischinocratigroup.com. winds. rev. 1-409 6262, FAN NO. 2639 6559 hold for the formation Regarding 32** Annual General Meeting to be held through Video Conferencing (VC)/Other Audio Usual Means (OVAIH)

VIOTEC is hereby given that the 32** Annual General Meeting (1AOM) the Members of the Company will be held on Monday. September of the Members of the Company will be held on Monday. September of the Members of the Company will be held on Monday. September of the Members of the Company will be held on Monday. September of the Members of th

from in the Notice of the AGM.

The AGM will be held only through VC / OAVM in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and circulars issued by the MCA and SEBL. Incalled for a positive of provision to the available for the AGM. Electronic copies of the Notice and the Annual Report of the Company of Fraincail's Vara (2023-24 is being sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses at registered with the Company of CSD/100DL (*Depocitories*) and will are of the Company of CSD/100DL (*Depocitories*) and will are and the websites of the stock exchanges where the Company shares are listed.

Any Member holdings the -the anactives as in mobile insured: Any Member holding share(s) in physical mods who have not registered and the state of t

note E-voting: erms of Section 108 of the Companies Act, 2013 r In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 26 of the Companies Management and Administration Place, 2014, the Resolutions for consideration at the 32° AGM will be transacted through remote a-voting facility (remote a-voting) and a-voting during the AGM (e-voting) for which purpose services of National Security Depository, Detailed United (NSDL) have been engaged by the Company, Detailed provided in the Notice of 32° AGM. Members alterading the AGM through CVOVAM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Any query/grevance in relation to remote e-voting can be addressed to the Company Secretary of the Company at the addressed policy and the company at the addressed policy and the company and the addressed policy and the company and the co

WARDWIZARD FOODS AND BEVERAGES LIMITED

CIN: L15100WB1953PLC021090

Regd. Off.: Old Nimta Road, Nandan Nagar, Belghoria, Kolkata-700083

Corp. Off.: 418. GIDC Estate, POR, Ramangamdi, Vadodara - 391243

Mobile: +91 6355426350, Email: compliance@wardwizardloods.com

NOTICE OF THE 70TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE OF THE TOTH ANNUAL GENERAL MEETING
TOTICE IN FERSE YOUNG NAT HA TO WAN A DAMAGE AND HE MERGING (ASM) of the
minders of WARDWIZARD FOODS AND BEVERAGES LIMITED will be field of
dendessky, 20th September, 2024 at 103,100 a.m. through Willow
Generative of the MARDWIZARD FOODS AND BEVERAGES LIMITED will be field of
conference of the MARDWIZARD FOODS AND BEVERAGES LIMITED will be field
size of the AGM. The Company has sent the Annual Report along with Notice
reming AGM on Monkey, 20th September, 2024 fineuple electronic mode to all the
mothers winds e-mail. But are registered with the Depository Participantial
of the MARDWIZARD Canada and the Company of the MARDWIZARD Canada and
AND ADMAGES AND A SERVICE A

w wardwardhoods com and on the website of Slock Exchanges is. 885 Emitted in towershall concovered to the provision of School of of the towershall concovered to the provision of School of the propriety of the Propriety of School of the Propriety of School of of the propriety of the Propriety of School of the School of the propriety of the School of sc

injuriently so in tent September, 2024 (cut-orricate); the emote e-voting period commences or Sunday, 22nd September, 2024 at 9.0 m. and will end on Tuesday, 24th September, 2024 at 5.00 p.m. During this period bembers may east their vale electronically. The remote e-voting module shall sabled thereafter. Those Members, who shall be present in the AGM throug, 2024W1 facility and had not cast their verse on the Resolutions through remote ing and are otherwise not barried from doing so, shall be eligible to vote through it may selem a frein the AGM.

as again.

There's no department of the properties of the properti cluding e-voting.

flembers are requested to carefully read all the instructions detailed in the Notice
the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, Manner of casting vor
prough Remote e-voting or e-voting during AGM.

ntrougn Kemote e-voing or e-voing ouring AGM. Any query or grievance in relation to voling by e-voling can be addressed to the NSD or Registrars of the Company Mis. Purva Sharegistry (India) Pvt. Ltd. can be forwarde at email : evoling@nsdl.co.in or support@purvashare.com.

portigipurvashare.com. For For Wardwizard Foods and Beverages Limited Sol-Bhoomi Ketan Talati Company Secretary & Compliance Officer Place: Mumbai

मझोले व भारी वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 14% घटी ₹ 256.3 पिछला बंद भाव

₹ 251.5 आज का बंद भाव

-1.9 % ▼

11,123.5 10,896.1 10,424.1 Aug 2024 Aug Sep

बजाज ऑटो

दोपहिया वाहनों की घरेलू बिक्री पिछले साल के मुकाबले 30% बढ़ी ₹ 10,896.1 पिछला बंद भाव ₹ 11,123.5 आज का बंद भाव

2.1 %

कोल इंडिया 520.7

545 अगस्त 2024 में कोयला उत्पादन पिछले साल की तुलना में 12% घटा ⁵²⁵ **₹ 525.0** पिछला बंद भाव 515 **₹ 520.7** आज का बंद भाव Aug 2024 Aug Sep -0.8 % ▼



संक्षेप में

गोदरेज प्रॉपर्टीज ने दो भुखंडों की बोली जीती

रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज ने गुरुग्राम में 515 करोड़ रुपये की लागत वाले दो आवासीय भूखंडों की बोली जीत ली है। वह इन भूखंडों पर 3,400 करोड़ रुपये मूल्य के लक्जरी मकान बनाएगी। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने सोमवार को स्टॉक एक्सचेंज को बताया, 'गोदरेज प्रॉपर्टीज सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी। उसे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा आयोजित ई-नीलामी के जरिये गुरुग्राम में प्रीमियम स्थानों पर दो समूह आवास भूखंडों को विकसित करने के लिए आशय पत्र मिला है।'

> PUBLIC NOTICE is hereby give SHAH & MR. RIYAZ SAYED Carrying on Business of Buying and Selling of Used Cars at Office No. 166 Parekh Nagar, S.V. Road, Opp. Shatabdi Hospital, kandiyali (West) Mumbai 400067 under the name of "CAR DUKAAN" stands dissolved as w.e.f 31st October 2023. Henceforth NISARG SHAH is no longer a part of this company from this date As such any person and/or persons dealing with the above firm shall do at his or her own risk and costs.

घटी बिक्री, मारुति ने घटाए दाम

मारुति सुजूकी ने ऑल्टो के10 और एस-प्रेसो मॉडलों के दाम 6,500 रुपये तक कम किए

दीपक पटेल नई दिल्ली, 2 सितंबर

रुति सुजूकी इंडिया ने दो छोटी कारों ऑल्टो के10 और एस-प्रेसो के कुछ मॉडलों के दाम आज 6,500 रुपये तक घटा दिए। पिछले कई महीनों के दौरान इनकी बिक्री में खासी गिरावट के बीच दाम यह कटौती की गई है। अगस्त में मारुति ने इन दोनों छोटी कारों की कल 10,648 गाड़ियां बेचीं। यह सालाना आधार पर 12.8 प्रतिशत की गिरावट है।

मारुति सुजूकी ने बीएसई को दी सूचना में कहा, 'कंपनी ने सोमवार यानी 2 सितंबर से ऑल्टो के 10 और एस-प्रेसो के चनिंदा मॉडलों की कीमतों में कटौती ऐलान किया है। एस-प्रेसो एलएक्सआई पेट्रोल की कीमत 2,000 रुपये तक और ऑल्टो के 10 वीएक्सआई पेट्रोल की कीमत 6,500 रुपये तक कम की गई है।' एस-प्रेसो एलएक्सआई पेट्रोल की कीमत अभी तक 5.015 लाख रुपये और ऑल्टो के 10 वीएक्सआई पेट्रोल की कीमत 5.06 लाख रुपये थी। कीमतों में कमी की वजह से उनके दाम घटकर 4.995 लाख रुपये रह गए हैं।

पिछले कई महीनों से भारतीय बाजार में छोटी कारों की मांग में कमी आ रही है। छोटी कारों की श्रेणी में मारुति सुजूकी अग्रणी कंपनी है। साल 2023-24 में मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10 और एस-



प्रेसो की केवल 51.424 गाडियां ही बेच पाईं और इनकी बिक्री में पिछले साल की तुलना में 17.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

27 अगस्त को मारुति सुजूकी की सालाना आम बैठक (एजीएम) के दौरान कंपनी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा था कि मार्च 2026 तक छोटी कारों - हैचबैक और सिडैन की मांग फिर से बढ़ने की संभावना है।

भार्गव ने कहा 'हमको मांग बढ़ने की उम्मीद है। मुझे लगता है कि देश को छोटी कारों की जरूरत है और हम इंतजार कर रहे हैं। शायद 2025-26 के अंत तक हमें इस श्रेणी में मांग फिर से लौटती दिखेगी। हमारा पक्का विश्वास है कि हमारी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में कम लागत वाली और छोटी कारें जरूरी हैं। मांग में अस्थायी गिरावट से हमारी रणनीति में कोई बदलाव नहीं आने वाला है।'

जुलाई और अगस्त में मारुति की कुल थोक बिक्री में भी गिरावट आई है। अगस्त में मारुति की थोक बिक्री 1,43,075 रही जो पिछले साल की तुलना में 8.4 प्रतिशत की गिरावट है। इसलिए कि कंपनी ने डीलरों को कम वाहन भेजे क्योंकि डीलरों के पास पहले से ही बड़ी संख्या में बिना बिके वाहनों

होंडा की घरेल बाजार में बिक्री 9 प्रतिशत बढ़ी

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) ने सोमवार को बताया कि अगस्त में उसकी घरेलू बाजार में थोक बिक्री में सालाना आधार पर नौ प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 4,91,678 इकाई पर पहुंच गई। कंपनी ने अगस्त, 2023 में डीलरों को 4,51,200 वाहन भेजे थे। एचएमएसआई ने बयान में कहा कि उसका निर्यात पिछले महीने बढ़कर 47,174 वाहन हो गया, जो अगस्त, 2023 में 26,390 इकाई था। पिछले महीने कुल बिक्री बढ़कर 5,38,852 इकाई हो गई, जबिक पिछले साल इसी महीने यह 4,77,590 इकाई थी।

बजाज ऑटो की थोक बिक्री 16 प्रतिशत बढ़ी

मोटर वाहन विनिर्माता बजाज ऑटो की अगस्त में निर्यात सहित कुल थोक बिक्री सालाना आधार पर 16 प्रतिशत बढ़कर 3,97,804 इकाई हो गई। कंपनी की अगस्त 2023 में कुल थोक बिक्री 3,41,648 वाहन रही थी। बजाज ऑटो ने बयान में कहा कि कुल घरेलू बिक्री (वाणिज्यिक वाहनों सहित) अगस्त में 24 प्रतिशत बढ़कर 2,53,827 वाहन हो गई, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने में बिक्री 2,05,100 वाहन थी। बयान के अनुसार, समीक्षाधीन महीने में कुल निर्यात बढ़कर 1,43,977 हो गया। *भाषा*

समीर मोदी ने कहा ...

हो व्यक्तिगत रूप से वोटिंग की इजाजत'

सुरजीत दास गुप्ता नई दिल्ली, 2 सितंबर

तंबाक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड (जीपीआईएल) के निदेशक समीर मोदी ने अनुरोध किया है कि परिवार के चार सदस्यों की राय अलग अलग होने के कारण उन्हें 6 सितंबर को होने वाली सालाना आम बैठक (एजीएम) में ट्रस्ट में उनके प्रभावी हिस्से के आधार पर व्यक्तिगत रूप से वोट देने की अनुमति दी जानी चाहिए।

जीपीआई में परिवार के सदस्यों की हिस्सेदारी एक ट्रस्ट के माध्यम से बराबर है जिसमें भाई समीर और ललित (जिनकी भी यही राय है) और मां बीना मोदी और बेटी चारू (जो अपनी मां का समर्थन करती हैं) सदस्य हैं। समीर ने सोमवार को दिल्ली में बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ एक साक्षात्कार में यह तर्क दिया कि 12 प्रतिशत वोट वाले प्रत्येक सदस्य को एजीएम में व्यक्तिगत रूप से वोट देने की अनुमति दी जानी चाहिए।

एजीएम में जिन विवादास्पद प्रस्तावों पर मतदान होगा, उनमें 'कदाचार' के आधार पर जीपीआई के बोर्ड से समीर मोदी को सेवानिवृत्त करने का प्रस्ताव, बीना मोदी को अगले पांच वर्षों के लिए प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करना तथा बहन चारु मोदी (जो अपनी मां का समर्थन करती हैं) को लेना शामिल है।

समीर मोदी का कहना है, 'इस पारिवारिक विवाद से किसी का

भला नहीं होगा. शेयरधारक वैल्य घट जाएगी, कंपनी की संस्कृति भी प्रभावित होगी और इसका असर कर्मचारियों पर पड़ेगा। चुंकि हम चारों के बीच कोई समान राय नहीं है, इसलिए हमने जो दलील दी है, वह यह है कि हममें से प्रत्येक को एजीएम में व्यक्तिगत रूप से वोट करने की अनुमति दी जाए, जिसमें प्रत्येक के लगभग 12 प्रतिशत शेयर हैं. न कि मेरी मां को प्रबंधन टस्टी के रूप में 47 प्रतिशत के ब्लॉक के रूप में वोट करने दिया जाए।'

इस याचिका पर निर्णय उस अदालत में किया जाएगा जहां सुनवाई चल रही है।

मोदी का कहना है कि सितंबर 2026 तक कार्यकाल होने के बावजूद निदेशक पद से उन्हें हटाने के लिए एजीएम में 51 प्रतिशत शेयरधारकों की सहमति की आवश्यकता होगी। समीर के अनुसार चारु मोदी को कार्यकारी निदेशक के रूप में बोर्ड में शामिल करने के लिए 75 प्रतिशत समर्थन की आवश्यकता होगी, जबकि उनकी मां को जीपीआई के एमडी के रूप में फिर से नियुक्त होने के लिए भी इतने ही प्रतिशत वोटों की जरूरत होगी। मोदी ने कहा कि बोर्ड यह स्पष्ट करे कि उन्हें हटाने का क्या कारण है।

अन्य बडी शेयरधारक फिलिप मॉरिस है, जिसकी जीपीआई में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी है। लेकिन मोदी का कहना है कि वे आम तौर पर परिवार से जुड़े किसी भी विवादास्पद मुद्दे पर बोलने से

PARTNERSHIP

एनपीए प्रबंधन समूह, आईडीबीआई टॉवर, ११वीं मंजिल, बी-विंग, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेव कफ परेड, मुंबई - ४०० ००५.

मास्टर बीमा पॉलिसी के तहत बीमा के लिए भाव (कोटेशन) आमंत्रण हेतु नोटिस

आईडीबीआई बैंक लि. दारा आईडीबीआई बैंक लि. एवं अन्य ऋणदाताओं पक्ष में प्रभारित बंद / गैर-परिचालनगत इकाइयों की आस्तियों का बीमा करने व लिए प्रीमियम हेत कोटेशन प्रदान करने के लिए आईआरडीए के साथ विधिवत पंजीव साधारण बीमा कंपनियों / फर्मों से, जो मास्टर बीमा पॉलिसी (एमआईपी) के अंतर मानक जोखिमों सहित प्रच्छन्न जोखिमों अर्थात चोरी एवं आग से बीमा सरक्षा प्रद करती हों, मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है. भाव (कोटेशन) प्रस्तुत क की अंतिम तारीख १३ सितंबर २०२४ को अपराह ३:०० बजे तक है. इस संबंध अन्य विवरणों के लिए इच्छुक बोलीकर्ता आईडीबीआई बैंक लि. की वेबसाइ www.idbibank.in (सूचनाएं और निविदाएं) देख सकते हैं. उपर्युक्त के संबंध आगे कोई भी शुद्धिपत्र आवश्यक होने पर उसे बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किय जाएगा और समाचार पत्रों में अलग से कोई अधिसचना जारी नहीं की जाएगी. **मध्यस्थ:** – आनंद राठी इंश्योरेंस ब्रोकर्स

दिनांक: 03/09/२०२४

ANGEL ONE LIMITED Regd. Off: 601, 6th Floor, Ackruti Star, Central Road, MIDC, Andheri East, Mumbai - 400093 SEBI Registration No (Stock Broker): INZ000161534

PUBLIC NOTICE This is to inform that a entities named Angal One, Neetu. Pihu are unlawfully and deceptively using our Company's Logo and deceptive name as "Angal

One" to deceive the public at large. These entities/ individual are falsely representing themselves as Angel One and soliciting investments by promising unrealistic returns. These entities are also allegedly trapping investors with fake promises of low margin requiremen and investment guaranteed returns, providing illegal dabba trading platform and misusing Angel One brand.

Mobile No used by these entities - 9354005868, 9625286939, 9625285175, 9062898249, +14056484383 & +12282203778

Investors and General Public are hereby informed that Angel One Limited does not have any association and/or relation, directly or indirectly with the aforementioned entities in any capacity. Angel One Limited will not be liable in any manner of financial loss and /or

consequence of dealing with such entities. Please note that any person dealing with them will be dealing at his/her own risk and responsibilit For ANGEL ONE LTD

Authorized Signatory Date: 03.09.2024

ईएमएस लिमिटेड

सीआईएनः L45205DL2010PLC211609

पंजीकृत कार्यालयः 701. डीएलएफ टॉवर ए. जसोला. नई दिल्ली- 110025 **कॉर्पोरेट कार्यालयः** सी 88 द्वितीय तल आरडीसी, राज नगर, गाजियाबाद—201002, उत्तर प्रदेश वेबसाइटः www.ems.co.in मेल आईडीः ems@ems.co.in

14वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') वीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ओएवीएम (अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों) के माध्यम से आयोजित की जाएगी भाम बैठक ('एजीएम') सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को दोपहर 12:00 बजे (आईएसटी) वीडिय कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से कंपर्न भ्रधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में आयोजित की जाएगी, जो कॉर्पोरेट मामलो हे मंत्रालय द्वारा समय—समय पर जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों के साथ पढ़ी जाएगी, जिनमे नवीनतम 25 सितंबर, 2023 का सामान्य परिपत्र है और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के लागू प्रावधानों के साथ पढ़ी जाएगी, जो सेबी दारा समय—समय पर जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों के साथ पढी जाएगी. जिनमें नवीनतम : . अक्टूबर, 2023 का परिपत्र है जो एजीएम की सूचना में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसायो हो पूरा करने के लिए, सदस्यों की एक सामान्य स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी या भोएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति देता है। उपरोक्त परिपत्रों व भनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023—24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और ई—वोटिंग के लिए लॉगिन वेवरण के साथ एजीएम की सचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां केवल उन सभी को डलेक्ट्रॉनिक गाध्यम से भेजी जाएंगी जिनकी ई—मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ

रजीएँम की सूचना और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.ems.co.in पर नेवेशक अनुभांग में, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड (स्क्रिप कोड: . 143983) पर www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (प्रतीक EMSLIMITED) पर www.nseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी।

डीमैटरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटर्र प्रतिभागियों के साथ लाभांश और अन्य विवरण प्राप्त करने के लिए अपना ईमेल पता, मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण पंजीकृत/अपडेट करें। 31 मार्च, 2024 तक, कंपनी के सर्भ इक्विटी शेयर डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में हैं।

कंपनी सभी सदस्यों को एजीएम के दौरान रिमोट ई—वोटिंग ∕ ई—वोटिंग के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यावसायिक मदों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान कर रही है रेमोट ई—वोटिंग / ई—वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया, जिसमें ऐसे सदस्य भी शामिल हैं ज डीमैटरियलाइज्ड मोड में शेयर रखते हैं और उन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकत नहीं किया है रजीएम की संचना में प्रदान की जाएगी।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्राप्त करने के लिए सदस्यों क ात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड तिथि शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 होगी। यदि शेयरधारकों द्वारा एजीएम में इस तरह के लाभांश का भगतान अनमोदित किया जाता है. तो इसे व्रोत पर कर की कटौती के अधीन, इसकी घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर वितरित केया जाएगा।

ईएमएस लिमिटेड के लिए हस्ता. / नंद किशोर शर्मा

कंपनी सचिव

देनांक: 02.09.2024 स्थानः गाजियाबाद. उत्तर प्रदेश

ने उतारी नई कर्व एसयुवी मुंबई, 2 सितंबर

टाटा मोटर्स

टाटा मोटर्स ने टाटा कर्व एसयुवी कृप पेश कर तेजी से बढ़ रहे मिड एसयुवी श्रेणी में अपने कदम बढ़ा दिए हैं। शुरुआती अवधि में कर्व की कीमत 9.99 लाख (दिल्ली में एक्स शोरूम) रखी गई है। पेट्रोल-डीजल इंजन विकल्पों वाली इस पेशकश के साथ ही टाटा समूह तेजी से बढ़ रहे मिड-एसयवी खंड में

पेट्रोल के दो और डीजल के एक मॉडल में उपलब्ध कर्व सभी गाडियों में दोहरे क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसिमशन से लैस है और यह डीजल इंजन श्रेणी में पहली ऐसी कार है। ग्राहकों के एक बड़े हिस्से को आकर्षित करने के लिए कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत कम रखी है ताकि टाटा कर्व मिड एसयवी श्रेणी में ह्युंडै की क्रेटा और किआ सेल्टोस को टक्कर दे सके।

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा ने कहा, 'टाटा कर्व की पेशकश वाहन उत्कष्टता की दिशा में एक बडी उपलब्धि है। भारत में टाटा की नई एसयुवी कूप बॉडी वाली जिसे दुनियाभर में पहचान मिली है और जो केवल प्रीमियम श्रेणी में ही मौजुद थी। हम इस कार की पेशकश के साथ काफी उत्साहित हैं और हमें पुरा भरोसा है हमारे ग्राहक इस खास पेशकश को हाथों हाथ लेंगे '

यह गाड़ी छह अलग-अलग रंगों और गोल्ड एसेंस, डेटोना ग्रे, प्रिस्टिन व्हाइट, फ्लेम रेड, प्योर ग्रे और ओपेरा ब्लू में उपलब्ध है।

रेस्को ग्लोबल ने 350 करोड रुपये जुटाए

आईनॉक्स विंड की इंजीनियरिंग, खरीद व निर्माण (ईपीसी) शाखा रेस्को ग्लोबल के निदेशक मंडल ने प्रमुख निवेशकों से 350 करोड़ रुपये की इक्विटी जुटाने को मंजुरी दे दी है। आईनॉक्सजीएफएल समह के कार्यकारी निदेशक देवांश जैन ने कहा, 'रेस्को ग्लोबल में सही समय पर जुटाई गई निधि से कंपनी को अपने कार्यान्वयन को बढ़ाने और पेशकशों का विस्तार करने में मदद मिलेगी। हमारा मानना है कि यह हमारी सभी कंपनियों की भविष्य में शानदार वृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।' भाषा

अगस्त में ईवी बिक्री 13% घटी त्योहारी सीजन की नितिन कुमार पेशकश और नीतिगत नई दिल्ली, 2 सितंबर

अगस्त में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी)

की बिक्री जुलाई के मुकाबले 13 प्रतिशत घटकर 1,56,199 रह गई। इसका कारण ज्यादा आधार का असर और संभावित खरीदारों द्वारा त्योहारी सीजन की पेशकशों और सरकारी प्रोत्साहनों के संबंध में स्पष्टता की उम्मीद में खरीदारी टालना रहा।

इस क्षेत्र के विशेषज्ञ और उद्योग के अधिकारी बिक्री में इस गिरावट के लिए कई कारकों को जिम्मेदार मानते हैं जिसमें मल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) और ऐसे ग्राहक शामिल हैं जिन्होंने सरकारी नीतियों और त्योहारी सीजन की छट के संबंध में स्पष्टता का इंतजार करते हुए निवेश और खरीदारी रोक रखी है।

एनआरआई कंसल्टिंग सॉल्यशंस में 'केस' और 'अल्टरनेटिव पावरट्रेन्स' के विशेषज्ञ प्रीतेश सिंह ने कहा, 'अधिक आधार के कारण बिक्री में गिरावट है। सब्सिडी पर सरकार की स्पष्ट नीति न होने से ओईएम निवेश से कतरा रहे हैं और ग्राहकों ने संभावित सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए अपनी खरीदारी स्थगित कर दी है।'

ईवी दोपहिया विनिर्माता जितेंद्र ईवी

स्पष्टता का इंतजार कर रहे खरीदार

के सह-संस्थापक एस. शाह इससे कहते हैं कि ग्राहक भी त्योहारी सीजन का इंतजार कर रहे हैं। शाह ने कहा, 'भारत में त्योहारी महीने वाहन की बिक्री के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उपभोक्ता इस समय छूट की कोशिश और अनुकूल हालात में महत्वपूर्ण खरीद के ज्यादा इच्छुक रहते हैं।

सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 'वाहन' के आंकडों के अनुसार इस गिरावट के बावजूद अगस्त की बिक्री अब भी इस साल की तीसरी सर्वाधिक मासिक बिक्री रही। इससे पहले मार्च और जुलाई का स्थान रहा, जिनमें क्रमशः 2,13,000 और 1,78,900 वाहन बिके थे। कुल मिलाकर साल 2024 के पहले आठ महीने में वाहनों की बिक्री 12.3 लाख का आंकड़ा पार गई।

अलबत्ता पिछले महीने की तुलना में इस साल मासिक बिक्री में चार गुना गिरावट आई है। फरवरी में जनवरी के मुकाबले 2.3 प्रतिशत की मामूली गिरावट नजर आई, जून में मई की तुलना में 0.5 प्रतिशत की

मामुली गिरावट दिखी और अप्रैल में मार्च के मुकाबले 45.6 प्रतिशत की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। अगस्त में बिक्री में 13.2 प्रतिशत तक की गिरावट आई। इस साल सर्वाधिक बिक्री और

सर्वाधिक गिरावट दोनों ही विशेष नीतिगत बदलावों के बाद के महीनों में नजर आई। पिछले साल मई में बिक्री शीर्ष स्तर पर पहंच गई थी। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए फास्टर एडॉप्शन ऐंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक (ऐंड हाइब्रिड) व्हीकल्स (फेम) योजना के तहत अधिकतम सब्सिडी 1 जून से करीब 60,000 से घटाकर 22,500 करने के सरकार के फैसले के बाद ब्रिकी में यह इजाफा हुआ था। इस नीतिगत बदलाव की वजह से मई में बिक्री में उछाल आई और उसके बाद जून में 35 प्रतिशत की गिरावट आई।

इस साल 31 मार्च को फेम सब्सिडी खत्म होने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन (ईएमपीएस) 2024 की शुरुआत के बाद बिक्री में गिरावट आई। ईएमपीएस में सब्सिडी को आधा कर दिया गया. जिसके परिणामस्वरूप साल की सबसे बडी गिरावट आई। उद्योग की सर्वाधिक बिक्री मार्च में दर्ज की गई थी।

एरिना सैटेलाइट से पैठ बढ़ाएगी मारुति

पृष्ट 1 का शेष

मारुति के नेक्सा और एरिना के कुल 3,925 शोरूम हैं जो देश भर के 2.577 छोटे-बड़े शहरों में ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करते हैं।

बनर्जी ने कहा. 'चाल वित्त वर्ष के अंत तक हमारी योजना 50 और नेक्स शोरूम खोलने की है जिससे इस तरह के शोरूम की कुल संख्या बढ़कर 550 हो जाएगी। इसके साथ ही अगले साल 31 मार्च तक 100 नेक्सा स्टूडियो शोरूम भी खोले जाएंगे।' मारुति सुजूकी ने अगस्त 2015 में नेक्सा शोरूम की शुरुआत की थी।

मारुति सुजूकी की बहुलांश हिस्सेदार सुजूकी मोटर कॉर्पोरेश के अनुसार चाल वित्त वर्षे की पहली तिमाही में मारुति सजकी ने 4.27.000 कारें बेची हैं, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 1.2 फीसदी है।

अगस्त में कार विनिर्माताओं की घरेलू बिक्री पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 2-3 फीसदी घटकर 3,55,000 कारें रहीं। मांग कम होने और अनबिके स्टॉक बढ़ने के कारण कंपनियों को उत्पादन भी घटाना पड़ रहा है। अगस्त लगातार दुसरा महीना है जब यात्री कारों की थोक बिक्री में गिरावट आई है। जुलाई में कारों की बिक्री 2.5 फीसदी घटकर 3,41,510 कारों की रही थी।


10 एनएम से छोटी चिप का होगा 60% हिस्सा

सुरजीत दास गुप्ता नई दिल्ली, 2 सितंबर

देश में सेमीकंडक्टर चिप की मांग में बड़ा बदलाव आने वाला है। मूल्य के लिहाज से साल 2032 तक 60 प्रतिशत हिस्सा 10 नैनोमीटर (एनएम) से छोटी चिप का रहने की उम्मीद है। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (आईईएसए) की आने वाली रिपोर्ट में यह अनुमान जताया गया है। इस रिपोर्ट को सरकार के सहयोग से जल्द जारी किया जाएगा।

वर्तमान में 10 नैनोमीटर चिप की देश के 40 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर बाजार में केवल 24 से 25 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2030 तक देश में सेमीकंडक्टर चिप की मांग बढ़कर 100 अरब डॉलर से ज्यादा होने का अनुमान है।

आईईएसए के अध्यक्ष अशोक चांडक 10 नैनोमीटर से कम की चिपों की दिशा में बढ़ने के बारे में बताते हैं, 'भारत में डेटा केंद्र, मोबाइल फोन और कंप्युटिंग हार्डवेयर सभी को साल 2030 तक 10 नैनोमीटर से कम वाली अत्याधुनिक चिपों की जरूरत होगी।



जो आम तौर पर तीन से चार नैनोमीटर की

रेंज में आती है।' चांडक स्वीकार करते हैं कि

देश में 10 नैनोमीटर से कम वाली

चिपों की ज्यादातर मांग आयात से पूरी

उन्होंने कहा 'हां, 10 नैनोमीटर से कम

करनी पडेगी।

का होगा बड़ा हिस्सा ■ टाटा और अन्य कंपनियों के लिए पारंपरिक चिप का होगा ४० अरब डॉलर का बाजार : रिपोर्ट

बढ़ेगी हिस्सेदारी

■ सेमीकंडक्टर चिप की वैश्विक मांग साल 2030-32 तक एक लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचने का अनुमान

■ साल 2032 तक देश के सेमीकंडक्टर

बाजार में मूल्य के लिहाज से छोटी चिपों

■ इसमें से 65 प्रतिशत मांग 10 नैनोमीटर से कम की चिपों की होने की उम्मीद

वाली चिपों का एक बड़ा हिस्सा आयात किया जाएगा। हालांकि भारत में आउटसोर्स किए गए सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (ओएसएटी) क्षेत्र की माइक्रोन जैसी

कंपनियां, जिन्हें कम पुंजीगत व्यय की

जरूरत होती है, और अन्य उभरती हुई

कंपनियां इस मांग का कुछ हिस्सा पूरा करने

में सक्षम होंगी। फिर भी निर्माण (फैब) के लिहाज से 10 नैनोमीटर से कम क्षमता वाली चिप की आपूर्ति सीमित रहेगी।

चांडक का कहना है कि भारतीय फैब संयंत्रों में 28 नैनोमीटर से 45 नैनोमीटर तक की पारंपरिक प्रौद्योगिकी चिपों के लिए अब भी बड़ा बाजार होगा। इन संयंत्रों में टाटा और अन्य कंपनियों के ऐसे संयंत्र शामिल हैं, जिनमें आने वाले वर्षों में परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। इस श्रेणी का मूल्य साल 2032 तक लगभग 40 अरब डॉलर होने का अनुमान है और इसकी विभिन्न क्षेत्रों में जरूरत होगी। परिपक्व और ज्यादा नैनोमीटर चिपों के लिए बड़ा निर्यात बाजार होगा।

चांडक ने कहा 'भारतीय ओएसएटी और फैब संयंत्र को अब भी बड़ा निर्यात बाजार मिलेगा। सेमीकंडक्टर चिप की वैश्विक मांग साल 2030-32 तक एक लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें से 65 प्रतिशत मांग 10 नैनोमीटर से कम वाले चिपों के लिए होने की उम्मीद है। हालांकि 10 से ऊपर के चिपों के लिए अब भी 300 से 350 अरब डॉलर की मांग होगी, जिसे पूरा करने की जरूरत है।'

मुं**बई संस्करण** : बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक संगीता खेओरा द्वारा में. दांगट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, 22, दीघा एमआईडीसी, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, विष्णु नगर, दीघा, नवी मुंबई–400708 से मुद्रित एवं बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, एच/4, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, बिड़ला सेंचुरियन के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई–400013 से प्रकाशित संपादक : कैलाश नौटियाल\ आरएनआई नं. MAHHIN/2008/24325 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर 'संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन - 033-22101314/1022/1600 फैक्स - 033-22101599 सबस्क्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए संपर्क करें... सुश्री मानसी सिंह हेड, कस्टमर रिलेशन्सबिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, तीसरी और चौथी मंजिल, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, सेंचुरी मिल्स के सामने, पी बी मार्ग, वर्जी, मुंबई 400 013 ईमेल.. subs_bs@bsmail.inया 57575 पर एसएमएस करें REACHBS कोई हवाई अधिभार नहीं